



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 22, 2007/फाल्गुन 3, 1928

No. 185]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2007/PHALGUNA 3, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2007

का.आ. 267(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 652(अ), तारीख 4 मई, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के नामक्कल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 217.600 कि.मी. से 278.600 कि.मी. (सेलम-करूर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 28 जून, 2006 को “दि हिन्दू” और “डेली थांथी” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अनुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 217.600 कि. मी. से 278.600 कि. मी. (सेलम-करूर सेक्शन) तक के भूखंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी में)	भूस्वामी / अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				उप मंडल से पूर्व	उप मंडल के बाद				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	नामक्कल	नामक्कल	1) वल्लीपुरम	255/1ए1	255/7	निजी	शुष्क	91	1. वानगीली पुत्र पलनियण्
									2. शंकरन् पुत्र कोलानदागाउडर
									3. सिंगाराम पुत्र राकियना गाउडर
									4. सुन्दरम पुत्र सेनगादान
									5. चन्द्रशेखरन् पुत्र देवी गाउडर
									6. मिनाक्षी पत्नी मुथुसामी
									7. पलानिसामी पुत्र सेन्गली गाउडर
									8. कन्दासामी पुत्र पेराईसामी
				255/5	255/5बी	निजी	शुष्क	239	पुगोडी पत्नी सुब्रामनियम
				255/1ए3	255/9	निजी	शुष्क	208	1. वानगीली पुत्र पलनियण्
									2. शंकरन् पुत्र कोलानदागाउडर
									3. सिंगाराम पुत्र राकियना गाउडर
									4. सुन्दरम पुत्र सेनगादान
									5. चन्द्रशेखरन् पुत्र देवी गाउडर
									6. मिनाक्षी पत्नी मुथुसामी
									7. पलानिसामी पुत्र सेन्गली गाउडर
									8. कन्दासामी पुत्र पेराईसामी
				255/1बी	255/1बी2	निजी	शुष्क	788	1. नासन पुत्र अब्दुल सत्तार
				255/2ए1	255/10	निजी	शुष्क	945.5	1. पोसुनान (ए) रामासामीगाउडर पुत्र कुरुप्पन्ना गाउडर
									2. विजयकुमार पुत्र वियपुरी
									3. सुबाराभानियम पुत्र सेलवाकुमार
									4. पुन्नुसामी पुत्र मराप्पा गाउडर
									5. पलानिसामी पुत्र विरप्पा गाउडर
									6. मालारविजी पत्नी कदिरवेलु
				255/3ए	255/3ए2	निजी	शुष्क	275	इटटीकान पुत्र रामासामी गाउडर
				256	256/2	निजी	शुष्क	2950	रामासामी पुत्र मुथुसामी गाउडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				274/7ए	274/7ए2	निजी	शुष्क	27 अध्यक्ष नामक्कल आटो नगर ऐसीसियसन
				274/9	274/9बी	निजी	शुष्क	620 अशोक लेलेड निरुवनम्
				303/2ए2	303/4	निजी	शुष्क	214 मोहम्मद अली पुत्र कादर मोईदिन
				303/2बी2	303/6	निजी	शुष्क	411 जयन्ती पत्नी सलाई सुबाशमानियम
			2)थोटिट्यापट्टी	7/7ए	7/ए1	निजी	शुष्क	987 1.मुथुसामी पुत्र चिन्नागाउंडर 2. प्रकाश पुत्र मुथुसामी
				7/7बी	7/7बी1	निजी	शुष्क	372 करलन पुत्र रामासामी
				8/1ए	8/1ए1	निजी	शुष्क	1238 नालुसामी पुत्र पेराईसामी गाउंडर
				8/1सी	8/1सी1	निजी	शुष्क	276.8 परमशिवम् पुत्र कलियन्नगाउंडर
				8/1डी	8/1डी1	निजी	शुष्क	575.5 1. मरप्पन पुत्र सेलाप्पागाउंडर 2. रामासामी पुत्र सेलाप्पागाउंडर
				8/1ई	8/1ई1	निजी	शुष्क	261.8 परमशिवम् पुत्र कलियन्नगाउंडर
				8/1एफ1	8/3	निजी	शुष्क	689 शन्ति पत्नी पाडियन
				8/1एफ2	8/4	निजी	शुष्क	733 पल्लानियप्पन पुत्र कुपुसामी
				8/1जी1	8/5	निजी	शुष्क	1172 1. कुप्पामल पत्नी चिन्नुसामी 2. सेलवाराज पुत्र चिन्नुसामी 3. पलनिसामी पुत्र चिन्नुसामी 4. नालुसामी पुत्र कालीयप्पन
				8/1जी2	8/6	निजी	शुष्क	324 1. पावलाई पत्नी शंकरन् 2. पलनिसामी पत्नी शंकरन् 3. पोन्नुसामी पुत्र शंकरन्
				8/1जी3	8/7	निजी	शुष्क	397 थान्नाराज पुत्र चिन्नन

[फा. सं. भाराप्र/तक/उद-2/एलए/सेलम-करूर/नामक्कल 3(डी)2/2007]

प्रभाकर, उप सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2007

**S.O. 267(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number **S.O.652 (E)**, dated the 4<sup>th</sup> May, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.7, on the stretch of land from Km.217.600 to 278.600 (Salem - Karur Section) in Namakkal District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu" and "Daily Thanthi", both dated the 28<sup>th</sup> June, 2006; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 217.600 to Km 278.600 (Salem-Karur Section) on the National Highway No.7 in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the land owner / Interested persons
				Before sub division	After sub division				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Namakkal	1.Namakkal	(1) Vallipuram	255/1A1	255/7	Private	Dry	91	1)Vangli, S/o/palaniappan 2)Sankaran, S/o.KolandaGounder 3)Singaram, S/o.Rakkianna Gounder 4)Sundaram, S/o.Sengodan 5)Chandrasekaran, S/o.Devi Gounder 6)Meenakshi, W/o.Muthusamy 7)Palanisamy, S/o.Sengali Gounder 8)Kandasamy, S/o.Periasamy
				255/5	255/5B	Private	Dry	239	Poongodi, W/o.Subramaniam,
				255/1A3	255/9	Private	Dry	208	1)Vangli, S/o/palaniappan 2)Sankaran, S/o.KolandaGounder 3)Singaram, S/o.Rakkianna Gounder 4)Sundaram, S/o.Sengodan 5)Chandrasekaran, S/o.Devi Gounder 6)Meenakshi, W/o.Muthusamy 7)Palanisamy, S/o.Sengali Gounder 8)Kandasamy, S/o.Periasamy
				255/1B	255/1B2	Private	Dry	788	1)Nasan, S/o.Abdul Saththar
				255/2A1	255/10	Private	Dry	945.5	1)Posungan (A) Ramasamy Gounder, S/o.Karuppanna Gounder 2)Vijayakumar,S/o.Vaiyapuri 3)Subramanian,S/o.Selvakumar 4)Ponnusamy,S/o.Marappa Gounder 5)Palanisamy,S/o.Veerappa Gounder, 6)Maarvizhi,W/o.kadhirvelu
				255/3A	255/3A2	Private	Dry	275	Ettikan, S/o.Ramasamy Gounder
				256	256/2	Private	Dry	2950	Ramasamy, S/o.Muthusamy Gounder
				274/7A	274/7A2	Private	Dry	27	The President, Namakkal Auto Nagar Association
				274/9	274/9B	Private	Dry	620	Ashok Leyland Niruvanam
				303/2A2	303/4	Private	Dry	214	Mohammed Ali, S/o.Kadhar Mohideen

S 85 GI/07-2

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				303/2B2	303/6	Private	Dry	411	Jeyanthi, W/o. Salai Subramaniam,
			(2)Thottiyapatti	7/7A	7/7A1	Private	Dry	987	1) Muthusamy S/o Chinnagounder 2) Prakash S/o Muthusamy
				7/7B	7/7B1	Private	Dry	372	Karalan S/o Ramasamy
				8/1A	8/1A1	Private	Dry	1238	Nallusamy S/o Periyasamy Gounder
				8/1C	8/1C1	Private	Dry	276.8	Paramasivam S/o Kaliyannagounder
				8/1D	8/1D1	Private	Dry	575.5	1)Marappan S/o Sellappagounder 2)Ramasamy S/o Sellappagounder
				8/1E	8/1E1	Private	Dry	261.8	Paramasivam S/o Kaliyannagounder
				8/1F1	8/3	Private	Dry	689	Shanthi W/o Pandiyan
				8/1F2	8/4	Private	Dry	733	Palaniyappan S/o Kuppusamy
				8/1G1	8/5	Private	Dry	1172	1)Kuppammal W/o Chinnusamy 2)Selvaraj S/o Chinnusamy 3)Palanisamy S/o Chinnusamy 4)Nallusamy S/o Kaliyappan
				8/1G2	8/6	Private	Dry	324	1) Pavalayee W/o Sankaran 2)Palanisamy S/o Sankaran 3)Ponnusamy S/o Sankaran
				8/1G3	8/7	Private	Dry	397	Thangaraj S/o Chinnan

[F. No. NHAI/Tech/NS-2/LA/Salem-Karur/Namakkal 3(D) 2/2007]

PRABHAKAR, Dy. Secy.